

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2024-25	2024	2025					
		मई 31	अप्रै. 25	मई 2	मई 9	मई 16	मई 23	मई 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	26554	7219	13756	15165	21094	20448	21845	22722
1.2 प्राथमिक व्यापारी	25258	28830	23981	30222	23527	28838	34187	36058
1.3 राज्य सरकारें	40315	37927	43217	67479	62779	62391	64691	62591
1.4 अन्य	115688	110051	118563	107913	105679	98014	101268	92319
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	44887	66301	43713	45664	50838	49483	53966	50567
2.2 प्राथमिक व्यापारी	62218	69388	66918	66469	65448	64497	59786	61807
2.3 राज्य सरकारें	11078	9842	8932	9688	9688	9188	10688	11688
2.4 अन्य	104994	124315	96669	94867	89714	91019	89848	90226
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	72304	96254	67854	67424	70984	72339	71496	69501
3.2 प्राथमिक व्यापारी	86939	152028	85280	85297	77102	72934	74280	73306
3.3 राज्य सरकारें	37389	41131	45879	42833	45600	46263	46232	46344
3.4 अन्य	162757	159718	156866	154279	155914	155727	156223	160193
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	188072	180187	187551	115869	97920	132809	146825	134728
4.4 अन्य	572	1700	1005	562	419	1194	879	2166
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	790381	903004	771628	787300	778368	771142	784511	777323

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं हैं, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।